



20 फरवरी 2023

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट



Moneywise. Be wise.



प्रमुख खबरें

- चावल, गेहूं और दालों के रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान के कारण जून को समाप्त होने वाले चालू फसल वर्ष में भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 323.55 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- सरकार ने कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 5,050 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है, जबकि एटीएफ के विदेशी शिपमेंट पर टैक्स 6 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
- वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार जनवरी में भारत का निर्यात 6.58 प्रतिशत घटकर 32.91 अरब डॉलर रह गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में 35.23 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था।
- सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी 2023 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति घटकर 24 महीने के निचले स्तर 4.73 प्रतिशत पर आ गई।
- नवंबर-जनवरी में वनस्पति तेलों का आयात 30% बढ़ा है। पाम तेल का आयात 77% बढ़ा है। 2022-23 की पहली तिमाही में खाद्य तेल का आयात 47.76 लाख टन हुआ है। सूरजमुखी तेल का आयात बढ़कर 4.61 लाख टन हुआ। आरबीडी पामोलिन का आयात बढ़कर 6.30 लाख टन हो गया।
- कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने चालू वर्ष 2022-23 के लिए कपास उत्पादन अनुमान को 9 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) घटाकर 321.5 लाख गांठ कर दिया है।
- कमजोर मांग के कारण भारत का जनवरी में सोने का आयात एक साल पहले के मुकाबले 76% कम होकर 32 महीने के निचले स्तर पर आ गया। देश ने जनवरी में 11 टन सोने का आयात किया, जबकि एक साल पहले यह 45 टन था।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	10.02.23	16.02.23	बदलाव (%)
ग्वारगम	11877.00	12427.00	4.63%
कॉटनऑयलसीडकेक	2727.00	2825.00	3.59%
ग्वारसीड	5717.00	5913.00	3.43%
स्टील	47010.00	48540.00	3.25%
कपास	1622.00	1632.50	0.65%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	10.02.23	16.02.23	बदलाव (%)
जीरा	32950.00	30800.00	-6.53%
धान	4606.00	4401.00	-4.45%
कैस्टरसीड	7074.00	6800.00	-3.87%
सीसेमसीड	18835.00	18365.00	-2.50%
बाजरा	2188.00	2152.00	-1.65%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	10.02.23	16.02.23	बदलाव (%)
कच्चा तेल	6097.00	6422.00	5.33%
नेचुरल गैस	201.30	208.10	3.38%
लेड	183.95	185.40	0.79%
सोना गिनी	45500.00	45785.00	0.63%
तांबा	771.40	775.90	0.58%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	10.02.23	16.02.23	बदलाव (%)
निकल	2430.00	2380.00	-2.06%
एल्युमीनियम	223.30	219.10	-1.88%
मेंथा ऑयल	1014.90	1001.70	-1.30%
सोना	57543.00	56852.00	-1.2%
सोना एम	57424.00	56797.00	-1.1%

साप्ताहिक समीक्षा

डॉलर इंडेक्स में लगातार तीन हफ्ते की तेजी के कारण सीआरबी इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जो 104.25 के ऊपर बंद हुआ। फेड अधिकारियों जेम्स बुलार्ड और लॉरेटा मेस्टर दोनों ने केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में अधिक बढ़ोतरी की बात की, जिससे डॉलर में मजबूती दर्ज की गई। इसी वजह से सोने की कीमतों में पिछले तीन हफ्ते से 1966 डॉलर के उच्च स्तर से 1828 डॉलर तक लगातार गिरावट हो रही है। फेड अधिकारियों की टिप्पणियों के बाद डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी होने से निवेशकों ने बेहतर और सुरक्षित रिटर्न की संभावना से डॉलर में निवेश बढ़ा दिया। इसने सोने के बाजारों से बड़ी मात्रा में निवेश कम हो गया। अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना सोने जैसी गैर-यील्ड वाली संपत्तियों के लिए खराब है, क्योंकि यह उनकी अवसर लागत को बढ़ाती है। चांदी की कीमतों में लगातार पांचवें हफ्ते गिरावट हुई है। एमसीएक्स पर, भारतीय रूपये ने सोने की कीमतों में गिरावट को सीमित कर दिया लेकिन फिर भी, कीमतें 2023 के रिकॉर्ड उच्च स्तर 58826 से 55880 पर आ गईं। चांदी की कीमतों में तेज गिरावट हुई और कीमतें 65000 के करीब बंद हुईं। डॉलर इंडेक्स में तेजी के बावजूद तांबे की कीमतों में अधिक मजबूती दर्ज की गई। पनामा सरकार और विदेशी तांबा खनन कंपनियों के बीच गहराते विवाद के कारण भी देश से तांबे के निर्यात को निलंबित करने की धमकी दी, जिससे आपूर्ति सीमित हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं। एल्युमीनियम, लेड और जिंक की कीमतों पर दबाव देखा गया। इस साल की शुरुआत में अधिकांश कोविड रोधी उपायों में ढील दिए जाने के बाद भी चीन के आर्थिक आंकड़े कुछ हद तक ठीक-ठाक रहे हैं। ऊर्जा काउंटर में, नेचुरल गैस की कीमतें सपोर्ट स्तर के लिए संघर्ष कर रही थी, जबकि कच्चा तेल 6660 के रेजिस्टेंस को पार करने में विफल रहा। कच्चे तेल की कीमतें गिरावट के साथ बंद हुईं क्योंकि मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने चिंताओं को बढ़ा दिया कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मौद्रिक नीति को अधिक सख्त करेगा जो एक ऐसा कदम होगा जिससे ईंधन की मांग को प्रभावित हो सकती है जबकि भंडार में बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिकी सरकार के अनुसार गैस का भंडार एक साल पहले की तुलना में 17% अधिक होने के बयान के बाद नेचुरल गैस की कीमत 200 के स्तर से नीचे टूट गई।

कृषि कमोडिटीज में, अरंडी की कीमतों ने किसी भी तरह का सपोर्ट लेने से इनकार कर दिया, जबकि कॉटनऑयलसीडकेक ने अपनी पिछले बढ़त को छोड़ दिया। फिर से शुरू किए गए नए कॉटन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नकारात्मक रुझान के साथ एक दायरे में कारोबार हुआ। ग्वार में तेज उछाल देखा गया जबकि पर्याप्त आपूर्ति के कारण मसालों में गिरावट दर्ज की गई। जीरे की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट बेहतर फसल की खबरों के कारण हुई और किसान अपनी उपज सीधे खेत से मंडी भेज रहे हैं। मेंथा ऑयल की कीमतों में बहुत जरूरी रिकवरी हुई। आवक सीजन के बीच व्यापारियों द्वारा थोक खरीद नहीं होने के कारण धनिया की कीमतों में गिरावट हुई।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	10.02.23	16.02.23	(%)
जौ	जयपुर	2900.00	2925.00	0.86%
चना	दिल्ली	5010.05	5099.85	1.79%
धनिया	कोटा	7142.15	7169.85	0.39%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	864.15	878.45	1.65%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1189.45	1180.00	-0.79%
ग्वारसीड	जोधपुर	5907.50	5951.05	0.74%
ग्वारगम	जोधपुर	12463.35	12665.25	1.62%
जीरा	ऊंझा	32684.60	31015.60	-5.11%
सरसों	जयपुर	5955.00	5949.90	-0.09%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1160.00	1162.50	0.22%
सोयाबीन	इंदौर	5645.10	5607.15	-0.67%
हल्दी	निजामाबाद	7130.70	7011.55	-1.67%
गेहूं	दिल्ली	2800.00	2583.80	-7.72%
काँटन	कड़ी	29711.75	30118.10	1.37%
काँटनऑयलसीडकेक	अकोला	2848.05	2841.70	-0.22%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	10.02.23	16.02.23	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2440.50	2394.00	-1.91%
तांबा	LME	नकद	8857.50	9023.00	1.87%
लेड	LME	नकद	2078.50	2029.50	-2.36%
निकल	LME	नकद	27794.00	26489.00	-4.70%
जिंक	LME	नकद	3042.50	3003.50	-1.28%
सोना	COMEX	मार्च	1865.90	1843.40	-1.21%
चांदी	COMEX	मार्च	22.08	21.71	-1.68%
लाइट क्रूड	NYMEX	मार्च	79.72	78.49	-1.54%
नेचुरल गैस	NYMEX	मार्च	2.51	2.39	-4.78%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	10.02.23	16.02.23	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	मार्च	15.42	15.26	-1.04%
सोया तेल	CBOT	मार्च	60.54	61.90	2.25%
काँटन	ICE	मार्च	85.27	81.25	-4.71%
सीपीओ	BMD	मई	3,931.00	4,069.00	3.51%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	09.02.23 क्वांटिटी	16.02.23 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	20	20	0
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	17669	14469	-3200
धनिया	मी.टन	364	0	-364
काँटनऑयलसीडकेक	मी.टन	528	2546	2018
ग्वारगम	मी.टन	15566	15327	-239
ग्वारसीड	मी.टन	20095	21748	1653
जीरा	मी.टन	369	0	-369
मक्का	मी.टन	41	0	-41
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	0	0	0

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	10.02.23 क्वांटिटी	16.02.23 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	4406	3761	-645
तांबा	मी.टन	1249544	1177544	-72000
सोना	किग्रा	319	318	-1
सोना मिनी	किग्रा	13456	13456	0
सोना गिनी	किग्रा	29500	29500	0
लेड	किग्रा	837	837	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	236870	255881	19011
चांदी एम	किग्रा	40935	40935	0
जिंक	मी.टन	1505	1465	-40

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 10.02.23	स्टॉक की स्थिति 16.02.23	अंतर
एल्युमीनियम	490550	602150	111600.00
तांबा	64475	65975	1500.00
निकल	48252	46566	-1686.00
लेड	22150	24500	2350.00
जिंक	21375	25075	3700.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मार्च	33165.00	25.01.23	मंदी	31485.00	-	31550.00	31600.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	7010.00	25.01.23	मंदी	7744.00	-	7450.00	7500.00
NCDEX	ग्वारसीड	मार्च	5912.00	07.02.23	मंदी	6000.00	-	6170.00	6200.00
NCDEX	कैस्टरसीड	मार्च	6936.00	12.12.22	मंदी	7500.00	-	6970.00	7000.00
NCDEX	स्टील लांग	मार्च	48210.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	50500.00	50600.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	मार्च	2740.00	30.01.23	मंदी	2890.00	-	2870.00	2900.00
MCX	मेंथा ऑयल	फरवरी	1001.70	16.01.23	मंदी	1050.00	-	1037.00	1040.00
MCX	बुलडेक्स	फरवरी	15552.00	15.02.23	मंदी	15300.00	-	15670.00	15700.00
MCX	चांदी	मार्च	67030.00	14.02.23	मंदी	66000.00	-	67950.00	68000.00
MCX	सोना	अप्रैल	56852.00	14.02.23	मंदी	56500.00	-	57400.00	57450.00
MCX	मेटलडेक्स	फरवरी	18557.00	23.06.22	साइडवेज	17500.00	17000.00	19000.00	-
MCX	तांबा	फरवरी	775.90	15.02.23	मंदी	770.00	-	790.00	795.00
MCX	लेड	फरवरी	185.40	15.02.23	मंदी	184.00	-	189.00	190.00
MCX	जिंक	फरवरी	277.60	15.02.23	मंदी	275.00	-	279.00	280.00
MCX	एल्युमिनियम	फरवरी	219.10	15.02.23	मंदी	212.00	-	219.00	220.00
MCX	कच्चा तेल	मार्च	6422.00	30.01.23	मंदी	6400.00	-	6790.00	6800.00
MCX	नेचुरल गैस	मार्च	208.10	19.12.22	मंदी	480.00	-	228.00	230.00

*16/02/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

तांबा (मार्च) एमसीएक्स



तांबा (मार्च) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 788.30

निचला स्तर: 760.00

एमसीएक्स में तांबा (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 16 फरवरी 2023 को 777.50 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 770.64 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 54.55 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

787.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 752.00 ₹ के टारगेट के लिए 777.00 ₹ के नीचे बिकवाली की जा सकती है।

कैस्टरसीड (मार्च) एनसीडीईएक्स



कैस्टरसीड (मार्च) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 7724.00

निचला स्तर: 5868.00

एनसीडीईएक्स में कैस्टरसीड (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 16 फरवरी 2023 को 6800.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6967.15 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 32.880 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6950.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 6600.00 ₹ के टारगेट के लिए 6850.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

कच्चा तेल (मार्च) एमसीएक्स



कच्चा तेल (मार्च) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 6781.00

निचला स्तर: 6070.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 16 फरवरी 2023 को 6539.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6486.93 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 46.697 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6730.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 6000.00 ₹ के टारगेट के लिए 6550.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

हाजिर बाजारों में सुस्त मांग के कारण हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतों में नरमी का रूझान जारी रहने की उम्मीद है। तेलंगाना के निजामाबाद बाजार में आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि पिछले सप्ताह के दौरान रोजाना औसतन लगभग 7000-8000 बैग की आवक हुई है। मौसम की स्थिति कटाई गतिविधियों के अनुकूल दिख रही है जिससे आवक में अधिक वृद्धि होगी। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी आवक बढ़ने की संभावना है जिससे कीमतें दबाव में रहेंगी। लेकिन कीमतों को जल्द ही 6700 के करीब सपोर्ट मिलने की संभावना है क्योंकि तेलंगाना में किसान हल्दी के प्रति सरकार की कृषि नीतियों का विरोध कर रहे हैं और वे कीमतों में अत्यधिक गिरावट पर अपनी आवक रोक सकते हैं। किसान बेहतर कीमत पाने के लिए हल्दी की एमएसपी तय करने की मांग कर रहे हैं। पिछले वर्ष के 19 हजार टन की तुलना में फरवरी 23 के पहले 15 दिनों में लगभग 9.8 हजार टन की आवक दर्ज की गई है। हल्दी की कीमतें 6700-7500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

सुस्त खरीदारी के कारण जीरा (मार्च) वायदा की कीमतों पर दबाव रहने की संभावना है। आगे नई फसल को देखते हुए मिलें थोक खरीद से परहेज कर रही हैं। राजस्थान में मौसम अनुकूल होने से उपज की संभावना में सुधार हुआ है। चीन के आयात में गिरावट के कारण वर्ष 2022 में जीरा निर्यात साल-दर-साल 22% घटकर 1.78 लाख टन रह गया। चीन ने पिछले वर्ष के 62.8 हजार टन की तुलना में वर्ष 2022 में केवल 37.9 हजार टन का आयात किया। जीरा की कीमतें 29000-33000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

आगामी सीजन में आपूर्ति की बेहतर संभावनाओं के कारण धनिया वायदा (अप्रैल) की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। मांग में कमी आई है क्योंकि प्रमुख खरीदार और मसाला मिलें प्रमुख मंडियों में नई आवक की बढती आपूर्ति की संभावना से थोक खरीद से परहेज कर रही हैं। वर्ष 2021-22 में धनिया का कुल उत्पादन 8 लाख टन अनुमानित था और अधिक रकब के बीच बेहतर उपज की संभावनाओं के कारण वर्ष 2022-23 में उत्पादन 9.5 लाख टन तक बढ़ने की उम्मीद है। धनिया की कीमतों के 6700-7700 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

सुस्त मांग के कारण कॉटन/कपास की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। अधिक कपास किसानों ने अपने उत्पादन को रोके रखा है, जिससे इस सीजन में कपास के वास्तविक उत्पादन को लेकर अटकलों को बढ़ावा मिला है। पिछले वर्ष के रकब और आवक की प्रवृत्ति में तेज उछाल के मद्देनजर, वर्ष 2022-23 में आवक की मात्रा संदिग्ध दिख रही है और इस बात की संभावना है कि वास्तविक उत्पादन केंद्र और अन्य विभिन्न हितधारकों द्वारा लगाए गए अनुमानों से अधिक हो सकता है। ट्रेड बॉडी, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चालू सीजन (अक्टूबर 2022-सितंबर 2023) के दौरान पिछले महीने अनुमानित 330.50 लाख गांठ से कपास फसल उत्पादन के अपने अनुमान को फिर से घटाकर 321.50 लाख गांठ (170 किलोग्राम) कर दिया है। कम अनुमान के साथ कृषि मंत्रालय ने अपनी कपास की फसल को कम करके 337.23 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। कमजोर मांग और अधिक स्टॉक के कारण एनसीडीईएक्स पर कपास (अप्रैल) की कीमतें आने वाले हफ्तों में 1570 के स्तर तक गिरावट होने की उम्मीद है, जबकि एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों में 62000 के स्तर तक गिरावट हो सकती है।

मांग की चिंताओं के कारण कॉटनऑयलसीडकेक (मार्च) वायदा की कीमतों में गिरावट की संभावना है। मार्च-अप्रैल में कॉटनऑयलसीडकेक की मौसमी मांग में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौजूदा स्तरों पर खरीद गतिविधियां धीमी रह सकती हैं। इसके अलावा सरसों की आवक शुरू होने से कॉटनऑयलसीडकेक के लिए बाजार का सेंटीमेंट प्रभावित हो सकता है। सरसों के बीज की खली का उपयोग भारत के उत्तरी भाग में कॉटनऑयलसीडकेक के विकल्प के रूप में किया जाता है। कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों के 2600-2850 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

स्थानीय बाजार में सीमित खरीदारी के कारण ग्वारसीड (मार्च) वायदा की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं। ग्वारगम की निर्यात मांग मार्च में सीमित रहने की संभावना है जो प्रमुख खरीदारों को ग्वार की थोक खरीद से दूर रखेगी। लेकिन स्थानीय बाजार में आपूर्ति कम होने से ग्वार की कीमतों में कम गिरावट होने की संभावना है। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आवक भी कम हो गई है क्योंकि किसान कीमतों में और अधिक वृद्धि की उम्मीद में रुके हुए हैं। वर्ष 2022 में भारत से ग्वारगम के निर्यात में अधिक वृद्धि देखी गई है क्योंकि भारत ने ग्वारगम और मील के लिए 408 हजार टन ग्वारसीड का निर्यात किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 32.5% अधिक है। तकनीकी रूप से, ग्वारसीड की कीमतों को 5700 के सपोर्ट पर और निकट अवधि में 6300 पर रेजिस्टेंस रह सकता है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों के 11500-14000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

स्थानीय बाजार में कमजोर मांग के कारण मंथा ऑयल वायदा (फरवरी) की कीमतों में गिरावट की संभावना है। कारोबारियों की नजर मुख्यतः आगामी बुवाई के आंकड़ों पर होगी क्योंकि रबी फसल की कटाई के बाद पश्चिमी यूपी में बुवाई शुरू होने की संभावना है। आवक की ऑफ सीजन अवधि के कारण आपूर्ति कम हो गई है। कीमतों के 980-1030 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आपूर्ति में सुधार के कारण अरंडी वायदा (मार्च) की कीमतों में गिरावट की संभावना है। अरंडी तेल कारोबारियों के लिए सुस्त निर्यात मांग अभी भी एक बड़ी चिंता है क्योंकि निर्यात में गिरावट के साथ घरेलू भंडार में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वर्ष के 689 हजार टन के मुकाबले वर्ष 2022 में कैंस्टर ऑयल का निर्यात 16% घटकर 581 हजार टन रह गया है। इस बीच, सरकार ने वर्ष 2023 में अरंडी बीज के उत्पादन अनुमान को 18.82 लाख टन तक बढ़ा दिया, जो साल-दर-साल 12% अधिक है। आगे चलकर अरंडी की कीमतें 6400-7100 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

सर्सीफा

कई मजबूत आर्थिक आंकड़ों के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में अधिक बढ़ोतरी के बारे में चिंता के कारण सोने की कीमतों में लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमतें जनवरी की शुरुआत के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। सोने की कीमतें पिछले सप्ताह लगभग 2% लुढ़क गई हैं। अमेरिकी खुदरा बिक्री के बेहतर आंकड़ों और उच्च उपभोक्ता कीमतों के बाद बाजार में पुनर्मूल्यांकन को बढ़ावा मिला है कि फेड अधिक आक्रामक नीति अपना सकता है, और यह सोने के लिए बहुत बुरा है। इस पुष्टभूमि के बाद वास्तविक ब्याज दरों में उछाल आया है, इसलिए गैर-लाभकारी सोने की कीमतों में गिरावट हुई है। कई फेड अधिकारियों का मानना है कि मुद्रास्फीति को केंद्रीय बैंक के 2% लक्ष्य तक लाने के लिए मौद्रिक नीति को कड़ा रहने सख्त करने की आवश्यकता है। फेड के दो अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में इस महीने की शुरुआत की तुलना में अधिक वृद्धि करनी चाहिए। अमेरिकी मासिक उत्पादक कीमतों में पिछले महीने 0.7% की वृद्धि हुई। इस बीच, नवीनतम सप्ताह के लिए बेरोजगारी लाभ के लिए नए दावे दाखिल करने वाले अमेरिकियों को संख्या घटकर 194,000 हो गई। मनी मार्केट को अब उम्मीद है कि बेंचमार्क दरें मई तक 5% से ऊपर बढ़ेंगी और साल भर उन स्तरों पर बनी रहेंगी। डॉलर इंडेक्स छह हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दिसंबर के अंत से बेंचमार्क 10-वर्षीय ट्रेजरी की यील्ड अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। कॉम्पेक्स पर, सोने की कीमतें 1820 डॉलर के अपने सपोर्ट स्तर के आसपास कारोबार कर रही हैं। यदि कीमतें इस स्तर से नीचे कारोबार करती हैं, तो 1780 डॉलर तक बढ़ सकती हैं और प्रमुख रेजिस्टेंस 1860 डॉलर के स्तर के पास देखा जा सकता है। चांदी भी कॉम्पेक्स चार्ट पर मंदी की स्थिति में दिख रही है और बिकवाली का दबाव जारी रह सकता है और कीमतें 19,800-22,800 डॉलर के दायरे में रह सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में एमसीएक्स पर बिकवाली का दबाव रहने की संभावना है, जहां सोने की कीमतों को 54000 के पास सपोर्ट मिल सकता है और 57500 पर रेजिस्टेंस रह सकता है, जबकि चांदी की कीमतें 60500 के स्तर पर सपोर्ट ले सकती हैं और 68200 के करीब रेजिस्टेंस का सामना कर सकती हैं।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक गिरावट गिरावट हुई क्योंकि मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी थी कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कड़ी मौद्रिक नीति जारी रखेगा, जिससे इंधन की मांग प्रभावित हो सकती है और कच्चे तेल के भंडार में बढ़ोतरी हो सकती है। बेहतर अमेरिकी आंकड़ों के कारण दरों में वृद्धि को लेकर चिंता बढ़ गई और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि को बढ़ावा मिला, जिससे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतों पर असर पड़ा। ईआईए की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी कच्चे तेल का भंडार पिछले सप्ताह अनुमान से अधिक बढ़ोतरी के बाद जून 2021 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए दरों में बढ़ोतरी और दुनिया के शीर्ष तेल आयातक चीन में मांग में तेजी की उम्मीद के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी की आशंकाओं के कारण पिछले हफ्तों में तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। आईईए के अनुसार कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने के बाद इस साल तेल की मांग में वृद्धि का लगभग आधी हिस्सेदारी चीन का होगा, लेकिन ओपेक+ देशों द्वारा सीमित उत्पादन का मतलब दूसरी छमाही में आपूर्ति में कमी हो सकती है। सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान ने कहा कि मौजूदा ओपेक+ तेल उत्पादन लक्ष्य को प्रति दिन 2 मिलियन बैरल कम करने का सौदा साल के अंत तक जारी रहेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह चीनी मांग को लेकर सतर्क है। इस सप्ताह में कीमतों में नरमी का रूझान जारी रह सकता है और कीमतों को 6200 के पास सपोर्ट और 6700 के पास रेजिस्टेंस रह सकता है। लगातार उच्च आपूर्ति और कम मांग के बीच पूरे सप्ताह नेचुरल गैस में बिकवाली का दबाव बना रहा। रॉयटर्स को प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 17 फरवरी को समाप्त होने वाले सप्ताह में गैस भंडार में 71 बीसीएफ की औसत कमी के साथ 42 बीसीएफ से 111 बीसीएफ की कमी हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में नरमी के रूझान के साथ कारोबार जारी रह सकता है और 175 के स्तर पर सपोर्ट और 220 के पास रेजिस्टेंस रह सकता है।



बेस मेटल

तांबे की कीमतों ने डॉलर इंडेक्स में जोरदार तेजी को नजरअंदाज कर दिया और कुछ तेजी के रूझान के साथ कारोबार किया क्योंकि निवेशकों को शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन की ओर से मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। शेष बेस मेटल की कीमतें गिरावट के साथ बंद हुई क्योंकि हाल ही में फंड ने दरों में अधिक बढ़ोतरी के संकेत दिए थे। जनवरी में अमेरिकी पीपीआई के बाद डॉलर इंडेक्स में मजबूती दर्ज की गई और बेरोजगार दरों में गिरावट हुई। एक मजबूत डॉलर आम तौर पर डॉलर मूल्य वाले डॉलर की मांग को कम कर देता है, क्योंकि अन्य मुद्राओं का उपयोग करने वाले खरीदारों के लिए अधिक महंगा हो जाते हैं। पिछले महीने चीन में सख्त कोविड-19 नियंत्रणों को समाप्त करने से तांबे की कीमतें सात महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन के नए घरों की कीमतों में एक साल में पहली बार जनवरी में बढ़ोतरी के बाद निवेशक काफी उत्साहित हुए। संपत्ति क्षेत्र महत्वपूर्ण धातुओं की मांग के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक, हेज फंडों ने जिंक और एल्युमीनियम में शॉर्ट पोजीशन बनाई। एक अनुमान के अनुसार, एलएमई एल्युमीनियम में सटोरियों द्वारा शुद्ध शॉर्ट पोजीशन अक्टूबर की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक था जबकि जिंक में शॉर्ट पोजीशन पिछले साल जुलाई के बाद से सबसे अधिक रहा। इस सप्ताह तांबे की कीमतों में दोनों तरफ की हलचल देखी जा सकती है और कीमतें 750-795 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चीन में मांग में सुधार की आशा बढ़ी क्योंकि पिछले सप्ताह धातु शेरों में वृद्धि धीमी रही। शंघाई प्युचर्स एक्सचेंज द्वारा मॉनिटर किए गए गोदामों में एल्युमीनियम का भंडार दिसंबर के अंत से लगभग 180% बढ़कर 268,984 टन हो गया है। लेकिन चीन में पिछले महीने रिकॉर्ड 4.9 ट्रिलियन युआन (720.21 बिलियन डॉलर) के नए बैंक ऋण की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि देश का केंद्रीय बैंक कोविड नियंत्रणों को हटाने के बाद विकास को गति देना चाहता है। सप्ताह की शुरुआत में एल्युमीनियम की कीमतें 200-225 के दायरे में कारोबार कर सकती है। लेड की कीमतें नरमी के रूझान के साथ 172-186 के दायरे में साइडवेज कारोबार कर सकती है। जिंक की कीमतें 255-280 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

भारत में सोने की मांग.....उच्च कीमतों पर आकर्षण फीका हुआ

भारतीयों में सोने के प्रति पीढ़ी दर पीढ़ी असाधारण आकर्षण रहा है। सोना सामान्य भारतीयों की लंबी अवधि के मूल्य भंडार की जरूरत को पूरा करता है, जो बैंक जमा या म्युचुअल फंड से बेहतर है। सोना भारतीय घरों के स्टेटस का एक प्रभावी प्रदर्शक भी है।

भारत में सोने की मांग

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कीमतों में तेज वृद्धि के बावजूद 2022 में भारत में कुल सोने की मांग 2.92 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 774 टन हुई है। 2021 में सोने की कुल मांग 797.3 टन थी।

2022 की चौथी तिमाही के दौरान देश में सोने की मांग 22 प्रतिशत घटकर 276.1 टन रही, जबकि 2021 की समान अवधि में कुल मांग 343.9 टन थी।

2022 में भारत में सोने का कुल आयात 673.3 टन हुआ है, जो 2021 के 924.6 टन की तुलना में 27 प्रतिशत कम है।

2022 में भारत में आभूषण की कुल मांग 2021 के 610.9 टन की तुलना में 2 प्रतिशत घटकर 600.4 टन रह गई और मूल्य के लिहाज से यह पिछले वर्ष के 261,150 करोड़ रुपये के मुकाबले 4 प्रतिशत बढ़कर 272,810 करोड़ रुपये की मांग हुई।

इसी तरह, वर्ष के दौरान कुल निवेश मांग 2021 के 186.5 टन की तुलना में 7 प्रतिशत घटकर 173.6 टन रही।

मूल्य के लिहाज से, सोने की निवेश मांग 2021 के 79,720 करोड़ रुपये से 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,860 करोड़ रुपये की हुई।


आरबीआई द्वारा सोने की खरीददारी

आरबीआई ने दिसंबर के दौरान 1.1 टन सोने की खरीददारी की और 2022 के अंत में सोने के अपने कुल भंडार को बढ़ाकर 787.4 टन कर दिया। 2022 के दौरान आरबीआई की 33.3 टन सोने की खरीददारी साल-दर-साल 57% कम है। वर्ष के अंत में आरबीआई का स्वर्ण भंडार 2021 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा भंडार के 6.9% की तुलना में 8.1% हो गया है।


भारत में सोने के ईटीएफ की होल्डिंग

2022 में भारत में सोने के ईटीएफ की होल्डिंग में 0.4 टन की मामूली बढ़ोतरी हुई। भारतीय रूपये के कमजोर होने के कारण सोने की उच्च घरेलू कीमतों ने कई निवेशकों के पोर्टफोलियो में सकारात्मक योगदान दिया और कुछ ने कीमतों में बढ़ोतरी के बाद मुनाफा वसूली करने के अवसरों का इस्तेमाल किया। अन्य निवेशकों ने इक्विटी बाजार की अस्थिरता के बीच अपनी होल्डिंग बढ़ाई और कुछ ने बाजार में प्रवेश करने के लिए सोने की कीमतों में गिरावट का उपयोग किया।

भारतीय सोने की मांग को सीपीआई में गिरावट से समर्थन मिल सकता है- जिसके 2022 में 6.9% से 2023 में 5.1% होने का अनुमान है। शादी के मजबूत मौसम और भारतीय रूपये में स्थिरता की उम्मीद से अधिक लाभ मिल सकते हैं। लेकिन कमजोर आर्थिक दृष्टिकोण, सोने की ऊंची कीमत और कमजोर ग्रामीण मांग भारतीय सोने की मांग के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं।



स्रोत: डब्ल्यूजीसी



स्रोत: डब्ल्यूजीसी



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूटेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोziशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।